

Ref. No.: SECY/S-16/2023

2<sup>nd</sup> September, 2023

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400001 Ph. No.: 022-22723121 COMPANY NO. 507828

Sub: Newspaper Advertisement Regarding Notice of the 39th Annual General Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper clipping of the advertisement in 'Business Standard' (English and Hindi) New Delhi edition dated 02<sup>nd</sup> September, 2023 titled "NOTICE OF THE 39<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING".

Kindly take the above information on record.

Thanking you.

Yours faithfully, For Ansal Housing Ltd.

(S.N. Grover) V.P. & Company Secretary M. No. FCS 4055

Encl:- as above

### **BAJAJ FINANCE LIMITED**

CORPORATE OFFICE: 3rd Floor, Panchshil Tech Park, Viman Nagar, Pune-411014, Maharashtra. Branch Office: 11th Floor Off No. 1152 Aggarwal Metro Heights, Plot No.e5, Netaji Subhash Palace Pitampura, New Delhi- 110034

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to them by Baiai Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets (N.P.A's) Ascordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by

way of this publication house to clear their outstanding dues under the four facilities availed by them from time to time.								
Loan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses	Address of the Secured/Mortgaged Immovable Asset / Property to be enforced	Demand Notice						
Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses	Ininiovable Asset / Property to be enforced	Date & Amount						
Branch: DELHI	All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural	22nd Aug 2023						
( LAN No. 401FSP36517811 )	Property Described As: FLAT NO-21 B FIRST FLOOR	Rs. 47,03,022/-						
1. KC SAMAL AND CO (Through its Proprietor	SHAHPUR JAT NEW DELHI 110049 , East :- OPEN, West :-	(Rupees Forty						
/Authorised Signatory/ Managing Director)		Seven Lac Three						
(Borrower)		Thousand Twenty						
At: At C-12 Paryavaran Malviya Nagar Delhi-110017		Two Only)						


2. KISHORE CHANDRA SAMAL (Co-Borrower) an Complex Neb Sarai Saket Delhi-110030

3. AMIT KUMAR SAMAL (Co-Borrower)

At: C-12 Paryavaran Complex Neb Sarai Saket Delhi-110030, Also At Plot NO-21 B First Floor Shahpur Jat New Delhi 110049 This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors) are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financia assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On whici

ajaj Finance Limited has the charge. Date: 02 .09. 2023 Place:- DELHI/NCR **Authorized Officer Bajaj Finance Limited** 



Raiasthan, Phone: 0144-2700667 E-Mail: coalwsamd@nnb.co.in, cs8184@nnb.co.ir E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securtisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive /Physical/symbolic Possession of which has been taken by the uthorised Officer of Puniab National Bank Secured Creditor, will be sold on "As is where is", As is what is", and "Whatever there is, whthout movab ms' on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s ortgagor (s) and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit willbe as mentioned in the below against the respective properties (A) Date of Demand notice u/s. (A) Reserve Details of Name of the Branch Description of the Price 13(2) of SARFAESI Act, 2002 Date/time the (Rs. in Lacs) Name of the Account/ immovable of encum (B) Outstanding amount as o Account No. properties (B) EMD e-auction brances (C) Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002 Name & Addresses mortgaged/ Owner's known to (C)Bid Increas of the Borrower/ Name (Mortgagors Amount Guarantors/ (D) Nature of Possession of property/ies) (D) Inspectio **Mortgagor Account** creditors Symbolic/Physical/Construct Residential House situated A) 10.10.2022 at A-160 Hasan Khan B) Rs. 1,05,23,001.28 PNB. Tijara. Alwar A) Rs.220.00 05.10.2023 M/s J S Automobiles Lakh From to the wat Nagar Alwar (Raj) together with further M/s J S Automobiles R) Rs 22 NN 11:30 AM bank as isan House, Opposite Power 301001 in the name of Smt. Giwani Devi w/o Late Jagmal Singh Yadav, Admeasuring 383.21 Sq. Rs. 83.65.000/-, out of dues Mtr. Bounded as: East: Main Road 80 Ft. Wide, West: Plot A-161, North: West: Plot A-161, South detail 10.10.202) 301001 in the name of interest w.e.f. 01.08.2023 louse Alwar Road Tijara C) Rs. 1,00,000/-Distt- Alwar (Raj) 301411 Mobile: 9829226097 record 04.00 PM (One Lakh) D) 04.10.2023 Smt. Sunita Yaday W/o Chandra Shekhar Yadav (Proprietor) A-160, Hasan Khan Mewat Nagar From 11.00 AM to 03.00 PM Plot No. A-159, South: dated 10.10.2022)

Circle SASTRA Department, Circle Office, Harshil Tower 29, Naru Marg, Alwar,

ERMS AND CONDITIONS- 1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4 The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website <a href="https://www.mstcecommerce.com">https://www.mstcecommerce.com</a> on above mentioned table as per the timings given in the table. 5. For detailed term and conditions of the sale, please refer <a href="https://www.ibapi.in">https://www.ibapi.in</a>, <a href="https://www.ppbindia.in">www.ppbindia.in</a> Secured Creditor Authorized Office STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 Place: Alwar Date: 01.09.2023 Puniah National Bank

It is to inform that SA No. 138/2023 filed in the A/c is pending before DRT Jaipur.

\*(This property is also O) 10.01.2023

Mortaged in Loan A/c of D) Symbolic Possession

Open by Lane 30 Ft. Wide

M/s Tijara Grits)



Smt. Giwani Devi W/o Late Jagmal Singh Yadav (Guarantor) A-160, Hasan Khan Mewat Nagar

Alwar (Raj) 301001 Mobile: 9829226097

**BRANCH OFFICE:** BHIWANI (LOHARA ROAD) (48300) HANSI ROAD, BHIWANI, HARYANA - 125021 PH.: 01644-242838

### **DEMAND NOTICE**

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF ACT 54 OF 2002 FOR ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST DEMAND NOTICE

Anotice is hereby given that the following borrower(s) have defaulted in the repayment of principal and interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets on 28.07.2023. The notice under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued to Borrower(s) / Guarantor(s) at their last known addresses by registered / speed post. However the notices have been returned un-served and the Authorised Officer has reasons to believe that the borrower(s) / guarantor(s) are avoiding the service of notice, as such they are hereby informed by way of public notice about the same Date of Amount as

Borrower(s) & Mortgagor(s)	of the Assets	NPA	Demand Notice	per Demand Notice (Rs.)	
Borrower(s):- (1) Shri Shyam					(i) Addl. Guaranteed
Cotton and Oil Mill, Haluwas,	(i) Addl. Guaranteed En	nergency C	redit Line;	1,04,68,594.69	Emergency Credit
Bhiwani, Haryana - 127021 (2)	Outstanding Amount as or	Date of NF		Line (ii) Union	
Sh. Harish Goyal S/o Sh. Shyam					Guarantee
Sunder, R/o Majra Dubadhan,	28.07.2023 to 16.08.2023: 1	1,801.45; <b>Co</b> :	st / Charges		Emergency Credit
	incurred by Bank: 0.00; Tot				Line (iii) CC-General
	No.: 2; Type of Facility:- Uni	on Guarante	e Emergency	rate.	

Credit Line; Outstanding Amount as on Date of NPA i.e. as on 28.07.2023; 4,79,446.71; Un applied interest w.e.f. 28.07.2023 to 16.08.2023: 8,062.39; Cost / Charges incurred by Bank: 0.00; Total Dues: 4,87,509.10. Sr. No.: 3; Type of Facility:- CC-General; Outstanding Amount as on Date of NPA i.e. as on 28.07.2023: 89,96,806.25; Un applied interest w.e.f. 28.07.2023 to **16.08.2023:** 4,42,477.89; **Cost/Charges incurred by Bank:** 0.00; **Total Dues:** 94,39,284.14. **TOTAL:** Rs. 1,04,68,594.69. IMMOVABLE PROPERTY/IES:- Plot / Land measuring 08 Kanals 19 Marlas i.e. 179/282 share of Land measuring 14 Kanals 02

Marlas comprised in Khewat No. 56//49 and Khatoni No. 84 bearing Khasra No. 74//21/2(6-18) 22(7-4) situated at Haluwas, Tehsi and District Bhiwani, as per Jamabandi for the Year 2016-17, Vide Sale Deed No. 6819, dated 05.08.2019 and Mutation No. 4511 dated 19.08.2019. Bounded on the:- East by: Sadak Aam, Dadri Bhiwani Road; West by: Rajbhaya; North by: Property of Kalu Halwashiya; South by: Property of Sh. Prem Kumar S/o Sh. Sant Lal.

Please note that if you fail to remit the dues within 60 Days and if the Bank exercises all its rights under this Act and if the dues are not fully satisfied with the sale of the proceeds of the secured assets, we shall be constrained to take appropriate legal action against you in a Court of Law / Debt Recovery Tribunal for recovery of the balance amount from you.

(1) You are hereby put on notice and your attention is invited to the provision that as per Section 13(8) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3(5) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, you can tender the amount of dues of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by the secured creditor at any time before the date of publication of the notice for public auction or by inviting quotations or tender from public or by private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets. Please also note that if the amount of dues together with the costs, charges and expenses incurred by the secured creditor is not tendered before the date of publication of notice for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets by public auction or by inviting quotation or tender from public or private treaty as stated above, you shall not be further entitled to redeen the secured asset(s). (2) You are further requested to note that as per Section 13(13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained / prevented from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the onsent of the bank. Please also note that any violation of this section entails serious consequences AUTHORIZED OFFICER Place: Bhiwani

# <u>ම</u> ansal Housing

**Ansal Housing Limited** - An ISO 9001:2015 Company -

Regd. Office: 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Head Office 2F-AHCL 2nd Floor Ansal Plaza Sector-1 Vaishali, Ghaziahad LLP - 201010 E-mail: ahl@ansals.com Website: www.ansals.com CIN: L45201DL1983PLC016821

NOTICE OF THE 39<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING Annexure-1 (Revised SI-4) Date: 30.08.2023

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the members of Ansal Housing Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 27th September, 2023 at 04:30 P.M. through video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("Act") and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 (dated 8th April, 2020), 17/2020 (dated 13th April, 2020), 20/2020 (dated 5th May, 2020), 22/2020 (dated 15th June, 2020), 02/2021 (dated 13th January, 2021), 02/2022 (dated 5th May, 2022) and Circular No. 10/2022 (dated December 28, 2022) respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common

The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2023 has been sent in electronic mode to Members whose E-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The electronic dispatch of the same has been completed on 01st September, 2023. The Notice of the AGM together with Annual Report can also be downloaded from the Company's website i.e. www.ansals.com.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the (Management & Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing emote e-voting facility to its Members holding shares so as to enable the Members to cast their votes electronically in respect of businesses to be transacted at the AGM. The Company has engaged Central Depository Services India Limited (CDSL) to provide e-voting facility. The e-voting facility is available at https://www.evotingindia.com/.

Pursuant to Rule 20 of the Rules, the Members are provided with the following information:

- 1. The remote e-voting period commences on Sunday, 24th September, 2023 at 09.00 A.M. and ends on Tuesday, 26th September, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 05:00 P.M on 26th September, 2023. During this period, the Members of the Company holding shares in the physical or electronic form as on the cut-off date i.e. Wednesday, the 20th September, 2023 may cast their vote electronically.
- 2. Any person, who acquire shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, the 20th September, 2023 may obtain the USER ID and Password by sending a request to the Company's email address **sect@ansals.com** or **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. However, if you are already registered with CDSL for remote e-Voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- 3. The Members are also informed that a Member who has not voted through remote e-voting can cast his/her vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e voting shall be eligible to attend the AGM. However, they shall not be eligible to vote at the
- 4. Members, holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the RTA of the Company at **delhi@linkintime.co.in** along with copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) and members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant(s).

he register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 21st September, 2023 to Wednesday, 27th September, 2023 (both days inclusive)

The procedure of e-voting is available in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the members by CDSL. Please refer to Instructions for remote e-voting and Instructions for attending the AGM through VC/OAVM given in the Notice of the AGM which can be downloaded from the website of the Company i.e. www.ansals.com or from download section of e-voting website of CDSL www.evotingindia.com. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or

By order of the Board of Directors For Ansal Housing Limited

Place: Vaishali, Ghaziabad Date: 01-Sept-2023

Som Nath Grover V.P. & Company Secretary M.No.: F4055



## MADHYA PRADESH TOURISM **BOARD (MPTB)**

CIN: U75302MP2017NPL043078 6th Floor, Lily Trade Wing, Jahangirabad, Bhopal Tel.: (0755) 2780600, www.tourism.mp.gov.in

NIT No.: 5659/PUBLICITY/MPTB/2023 SYSTEM No. 2023\_MPTB\_303864 1st September, 2023

EOI for Empanelment of National Level Agencies for Creatives and Brand Management Services and Media Planning and Buying"

MPTB invites offers for "EOI for Empanelment of National Level Agencies for Creatives and Brand Management Services and Media planning and buying". Terms and Conditions can be downloaded from website www.tourism.mp.gov.in and https://www.mptenders.gov.in. For any other information, contact +91-9407057416 or E-mail at cs.mptb@mp.gov.in Last date for online submission of EOI is 25th September 2023, 15:00hrs.

M.P. Madhvam/111781/2023 MANAGING DIRECTOR

# **Prakash Pipes Limited**

CIN: L25209PB2017PLC046660 Read, Office: Darijvan Wali Gali, Rayva, Teh-Baba Bakala, Amritsar-143112

NOTICE OF 6<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING** 

Notice is hereby given that 6<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Prakash Pipes Limited will be held on Saturday, the 30° September, 2023 at 12.30 p.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 and applicable rules made thereunder and Listing Regulations, read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business set out in the notice of AGM.

Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 and Notice setting out the businesses to be transacted at the AGM alongwith the Explanatory Statement have been sent on 28th August, 2023 through electronic mode only to those members whose e-mai addresses are registered with the Depositories / Company. The Annual Report and notice are also available on the Company's website www.prakashplastics.in and websites of Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Company has provided the remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to the members of the Company to cast their vote through remote e-voting on the resolution(s) set out in the Notice.

#### All the Members are hereby informed that:

- the businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through Voting by electronic means:
- (ii) the remote e-voting facility period begins on Wednesday, the 27th September, 2023 (9.00 a.m.) and ends on Friday, the 29th September, 2023 (5.00 p.m.). The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the proceedings of the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again;
- (iii) the members can opt only one mode of voting i.e. remote e-voting or venue voting through VC/OAVM at the AGM;
- (iv) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 23" September, 2023 and any person, who acquires the shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 23" September, 2023 also eligible for voting by electronic means
- (v) the detailed procedure and instructions for e-voting is provided in the notes forming part of the Notice of AGM;

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 19th September, 2023 to Thursday, 21th September, 2023 (both days inclusive) to determine the names of members eligible for payment of dividend @ 12%i.e. ₹ 1.20 per equity share of ₹ 10/- each for the financial year 2022-23.

The Resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions. The Result of e-voting will be placed by the Company on its website viz

www.prakashplastics.in within two days of the AGM and also communicated to the stock exchanges, where the shares of the Company are listed. In case of any queries/grievances with regard to e-voting, kindly contact - Mr. Rakesh

Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call (cas), Multida 4-00-15 of serior at E-main to repute servourige simulation of call on 1800 22 55 33 or Company Secretary at pplho@prakash.com or Ph. No. +91-11-25305800 or refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section.

By Order of the Board For Prakash Pipes Limite

Place : New Delhi Date: 01.09.2023

Jagdish Chandra Company Secretary

знакту

#### BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED PITRAH

Read, Office: 56/7, Nallambakkam Village (Via Vandalur), Chennai-600 048, Tamil Nadu CIN- L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21

E-mail: shares@bhartiva.com Website: www.bhartiva.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 36th Annual General Meeting ("AGM") of Bhartiya International Limited ("the Company") will be held on Friday, September 29, 2023 a 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Mean "OAVM"), to transact the business, as set out in the Notice convening 36th AGM of the Company.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued by the MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

Further, in accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been electronically sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company and/or Depositor Participant(s) ("DPs").

## Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM

- 1. Pursuant to Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide facility to its members, to cast their vote on all the Resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ("remote e-Voting"), provided by National Securities

  Depository Limited ("NSDL"). The detailed procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM.
- 2. The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Record date/Cut-off date i.e., Friday, September 22, 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023 (09:00 A.M. IST) and ends or Thursday, September 28, 2023 (05:00 P.M. IST). The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting after 05:00 P.M. (IST) on Thursday, September 28, 2023 Those who are not Members on the record date/cut-off date should accordingly trea the AGM Notice for information purposes only. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the total paid up Equity Share Capital of the Company as on the record date/cut-off date Members who have already cast their votes through remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again Members attending the AGM who have not cast their votes through remote e-Voting shall be able to exercise their voting rights during the AGM.
- Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares on the Record date/Cut-off date i.e. **Friday**, September 22, 2023 may obtain the login ID by referring the AGM notice. However, you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing use ID and password to cast your vote.
- 4. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Ravi Sharma, Partner RSM & Co., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process & e-voting during AGM in a fair and transparent manner.
- 5. Members who need assistance before and during the AGM, can contact Mr. Ami Vishal, Assistant Vice President, NSDL, or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager NSDL, at evoting@nsdl.co.in or call on toll free nos.: (022) 48867000 or (022 24997000. Alternatively, Members may also write to the Company Secretary of the Company at the email ID: <a href="mailto:shares@bhartiya.com">shares@bhartiya.com</a>.

he Notice of the 36th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 along with further details are made available on Company's website at <a href="www.bhartiya.com">www.bhartiya.com</a>, on website of Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

For Bhartiva International Limited

Yogesh Kumar Gautam Company Secretary and Compliance Officer Membership No. 31119 Date: 01st September 2023

Place: Gurugram, Haryana



For **Punjab National Bank**, AUTHORISED OFFICER

\*We reserve our rights to enforce other secured assets

suit/litigation pending before DRT/Court.

f bsindia

Dear Sir/Madam

Sr. Facility

Term Loan

Total

"secured debt").

Sr. No. Facility

Sr. No. Facility

consequences

Yours faithfully

Delete, if inapplicable.

Term Loan

Term Loan

bsindia

Mr. Shailendra Kumar S/o Alakh Prasad (Borrower)

(ii). Flat -473 B SK Sector-122, Noida U.P. 201301

(ii). Flat -473 B SK Sector-122, Noida U.P. 201301

Mrs. Sarika Devi W/O of Shailendra Kumar. (Mortgagor/Co-Borrower),

from BO: Alliance School Noida (522210) having Account No. 52226015000539

Limit (in Rs.)

490000.00

490000.00

Primary Security:-

Primary Security:-

(i). Flat no. 476 B, Block – SK, First Floor, Sector-122, Shramik Kunj, Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. -201301

(i). Flat no. 476 B, Block – SK, First Floor, Sector-122, Shramik Kunj, Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. -201301



pusiness) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank.



business-standard.com

Balance outstanding as on date of NPA i.e. Total outstanding as on 29.08.2023 + int. w.e.f 01.12.2022 (until payment in

nad Janoitan darnua

60 Days' Notice to Borrower/Guarantor/Mortgagor

Notice U/s 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

Rea : Credit facilities availed by MR Shailendra Kumar S/o Alakh Prasad (Borrower) and Mrs. Sarika Devi W/O of Shailendra Kumar (Mortgagor / Co-Borrower

By MR Shailendra Kumar S/o Alakh Prasad Add: Flat no. 476 B, Block -SK, First Floor, Sector-122, Shramik Kunj, Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. -201301 and Mrs. Sarika Dev

Due to non-payment of installment/ interest/ principal debt, the account/s has/have been classified as **Non Performing Asset on dated 04.05.2022** as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities.

The amount due to the Bank as on 30.08.2023 is Rs. 4,92,874.32 + further intt. w.e.f. 31.07.2023 + legal and other charges until payment in full (hereinafter referred to as

We hereby call upon you to pay the amount of is Rs. 4,92,874.32 + further intt. w.e.f. 31.07.2023 + legal & other charges until payment in full (hereinafter referred to as "secured

debt"). within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank as available under Law, the Bank is intending to exercise any or all

of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter

Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to you redeem the secured assets.

Please take notice that in terms of section 13(2) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of

You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence If for any reason, the secured assets are sold or

eased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realised shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such

ase comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and

This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be \*This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the

referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of non payment of secured debt by you are as under:

1. E.M of residential housing property Flat no. 476 B, Block – SK, First Floor, Sector-122, Shramik Kunj, Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. -201301

1. E.M of residential housing property Flat no. 476 B, Block – SK, First Floor, Sector-122, Shramik Kunj, Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. -201301

Covering area 28.19 sq mtr standing in the name of Mrs. Sarika Devi, having market value of Rs. 6.52 Lacs(Realizable Value Rs. 5.80 Lacs)

Boundaries are as under:- North East: Flat no. 175-B North West: Passage Area

SouthWest: Flat no-177-B

Covering area 28.19 sg mtr standing in the name of Mrs. Sarika Devi, having market value of Rs. 6.52 Lacs(Realizable Value Rs. 5.80 Lacs)

SouthWest: Flat no-177-B

W/O of Shailendra Kumar. (Add: Flat no. 476 B, Block – SK, First Floor, Sector-122, Shramik Kunj, Gautam Budh Nagar, Noida, U.P. -201301 have availed the following credit facilities

04.05.2022 (i.e principal + intt)

4.51.381.16

Rs. 4,51,381.16 + further intt. w.e.f.

04.05.2022 + legal & other charges(until

To secure the outstanding under the above said facilities, you have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets

Boundaries are as under:- North East: Flat no. 175-B North West: Passage Area

South East: Gali

South East:Gali

Ownership: In the name of Mrs. Sarika Devi W/O of Shailendra Kumar.

Ownership: In the name of Mrs. Sarika Devi W/O of Shailendra Kumar.

..the name you can BANK upo

**Branch Office: Alliance School,** 

Sec-22, Noida Ph. No-0120 2518190

Email - bo522210@pnb.co.in

full) + legal & other charges

Rs. 4,92,872.18 DR.+ further intt. w.e.f. 31.07.2023 + legal & other charges

Rs. 4,92,872.18 + further intt. w.e.f. 31.07.2023 + legal & other charges















Invitation of e-Bids

for Out Sourcing of Cane Marketing works in Mohiuddinpur (Meerut) unit of UPSSCL

UPSSCL invites e-Bid for out sourcing of cane marketing works in

e-Bid on the website www.etender.up.nic.in as per conditions given in

tender form upto 15.09.2023 till 5:00 pm, e-Bid shall be opened on

U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email:upstatesugarcorporation@gmail.com

issue duplicate certificates. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its registered office within 15 days from this date; else the company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

Name of the Share Holder	Folio No.	No. Of Shares	Distinctive Nos.	Certificate Nos.					
Krishana Rani	0006319	1350	10112484 to 10112583	50356,					
			10112584 to 10112613	50357,					
			10112614 to 10112618	50358					
Place: Delhi			Name of the Shareholders :						
Data: 02/00/2022				Krichene Beni					

## टीएआरसी लिमिटेड

(पूर्व में अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड) कारपोरेट पहचान संख्या :L70100DL2016PLC390526 **TARC** पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, सी-3, कुतुब इन्स्टिटूशनल एरिया, कटवारिया सराय नई दिल्ली -110016

दूरभाष: 011-41244300, ई-मेल: tarc@tarc.in,वेबसाइट: www.tarc.in

#### विडियो कान्फ्रैसिंग/अन्य आडियो विजुवल माध्यम द्वारा आयोजित होने वाली 7 (सातवीं) वार्षिक साधारण बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

कम्पनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये सभी लागू प्रावधानों एवं नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वो एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 साथ में पतित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक मई 05, 2020, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक मई 05, 2022 एवं परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक दिसम्बर 28, 2022 एवं सिक्योरीटीज एण्डं एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020 79 दिनांक मई 12, 2020, परिपत्र संख्यासेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021 11 दिनांक जनवरी 15, 2021, परिपत्र संख्यासेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/ पी/2022/62 दिनांक मई 13, 2022, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/ पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक जनवरी 05. 2023 एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ डीडीएचएस/डीडीएचएस–आरएसीपीओडी1/पी/सीआईआर/2023/001 दिनांक जनवरी 05. 2023, (संयुक्त रूप में संदर्भित 'परिपत्रों') एवं अन्य लागू कानूनो, जो कि सदस्यों की एजीएम में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, के अनुपालन में एतद्द्वार सूचना प्रदान की जाती है कि टीएआरसी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 7 (सातवीं) वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") शनिवार, सितम्बर 30, 2023 को प्रातः 11:00 बजे विडियो कान्फ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की वाषिकी रिपोर्ट उन सभी सदस्यों जिनके नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज द्वारा बनाये गये लाभदाई स्वामी की पंजिका में शुक्रवार, अगस्त 25, 2023 और जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों/रजिस्ट्रार के पास अंकित होंगे, को केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भेज दी जायेंगी एवं कम्पनी की वेबसाइट www.tarc.in एवं दोनों स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट i.e बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com एवं नेशनल सिक्योरीटीज डिपॉटरीज लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उचित समय पर उपलब्ध कराई जायेगी। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ केवल उन सदस्यों को भेजी जायेंगी जिन्होंने स्पष्ट रूप से भौतिक प्रतियों के लिए अनुरोध किया था।

सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिकली उनके वोट देने का अवसर मिलेगा। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग एवं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा शामिल होने के निर्देश के लिए भौतिक और साथ में डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए विस्तारित निर्देश एजीएम की सूचना में प्रदान किये

जिन शेयरधारकों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनसे अनुरोध है कि वे निम्नानुसार अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें:

- भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक लिखित में कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट viz., स्काईलाइन फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को admin@skylinerta.com अथवा कम्पनी को cs@tarc.in साथ में सदस्य के वर्णित नाम एवं पते की हस्ताक्षरित पत्र की कॉपी, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित कॉपी और सदस्य के पते के समर्थन में स्वअभिप्रमाणित पते के किसी प्रमाण का कागजात (eg.: ड्राईविंग लाईसेन्स, चुनाव पहचान पत्र पासपोर्ट) भेजें।
- डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल आईडी प्रासांगिक डिपॉटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत करा लें।

किसी भी प्रश्न/कठिनाई के लिए सदस्य admin@skylinerta.com अथवा cs@tarc.in पर

कृते टीएआरसी लिमिटेड हस्ता०/-अमित नारायण कम्पनी सचिव

तिथि : सितम्बर 01. 2023 स्थान : नई दिल्ली

लिख सकते हैं।

# (एसीएस 20094)

श्री कृष्ण पेपर मिल्स ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन — L21012DL1972PLC279773 पंजीकृत कार्यालय : 4830 / 24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली—110002

**ई—मेल**: info@skpmil.com, वेबसाइट: www.skpmil.com, फोन: 91-11-46263200

## सदस्यों को 51वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

यह सूचना हमारे पूर्व संदेश दिनांकित 25 अगस्त, 2023 के क्रम में है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण पेपर मिल्र ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 201: ("अधिनियम") तथा तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानों, सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाण वेनियमावली, 2015 ["सेबी (एओडीआर) विनियमावली"] के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुल नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 सहित पूर्व जनरल सर्कुलर्स ('एमसीए सर्कुलर्स') के अनुपाल-में निदेशक मंडल ने कम्पनी की 51वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 क पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, 51वीं एजीएम की सचन

51वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार, 01 सितम्बर, 2023 को ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता, एमसीए सर्कूलर्स तथा पूर्व सेबी सर्कुलर्स सहित सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/ दिनांकित 05 जनवरी, 2023 के अनसार, कम्पनी अथवा रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेन्ट ("आरटीए अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी") के पास पंजीबद्ध थे। उक्त कम्पनी की वेबसाइट (www.skpmil.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com), पर भी उपलब्ब हैं। अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआ विनियमावली के विनियम 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक-तथा एमसीए सर्कलर्स के अनुपालन में. सदस्यों को 51वीं एजीएम की सचना में सचीबद्ध सभी प्रस्तावों ए उनका वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान के माध्यम से डालने की सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं

के माध्यम से प्रदान की जा रही है। रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी त सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके होंगे, वे भी वीसी/ओएवीए सविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. परंत उनको एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा द्वा

पनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। o किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिया जाने के बाद, सदस्य को बाद में उस परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम से जुड़ने, ई-मेल पता पंजीकरण, लॉगइन

विवरण प्राप्त करने तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग हेतु विस्तृत अनुदेश 51वीं एजीएम की सूचना कम्पनी द्वारा श्री मनीष कुमार बंसल (अधिवक्ता) ग्लोबिज लीगल के पार्टनर, को सम्पूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिय

की संवीक्षा एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार उनके द्वारा मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर्स के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की सूची अथवा सदस्यों के रजिस्ट में दर्ज मौजूद होगा, केवल वही व्यक्ति एजीएम से जुड़ने, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है उसको यह . ।चना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए। कोई व्यक्ति, जो 51वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण की तिथि के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि को शेयर धारक है, वह 51वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुदेशों का अनुसरण कर अथवा shamwant.kushwah@linkintime.co.in तथ instameet@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है

तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग 51वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुदेशों के अनुसार अपना वोट डालने के लिए कर सकता है। यदि आपने अपना ई–मेल पता कम्पनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, आप कृपया नीचे

**भौतिक** कपया ई-मेल पता पंजीकत करवाने के लिए अपने नाम, फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए, शेय प्रमाणपत्र की स्क्रीन प्रति (फ्रेंट और बैंक) तथा पैन और आधार कार्ड की स्व-स्तायित स्क्रीन प्रति के साथ एक अनुरोध तिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए को shamwant.kushwah.@linkintime.co.in तथा instameet@linkintime.co.in पर अथवा कम्मनी को cs@skpmil.com पर मेंजें।

कृपया अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाने के लिए अपने डीपी से सम्पर्क करें त

**धारण** डीपी द्वारा दी गई सलाह का अनुसरण करें। सेबी ने भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (अर्थात डाक पता मय पिन कोड ई–मेल पता, मोबाइलनंबर, बैंक खाता विवरण) तथा नामांकन विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया . है। सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जबतव कि उपरोक्त विवरण/दस्तावेज आरटीए को उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तथा 01 अवदूबर, 2023 को अध्य पश्चात, उपरोक्त दस्तावेज/विवरण फोलियो(ज) में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आरटीए ऐसे फोलियो(ए फ्रीज करने हेतु बाध्य होगा। इस संबंध में संबद्ध विवरण तथा निर्धारित प्रपन्न कम्पनी व

वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 91 और तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानों तथा सेबी (एलओडीआ विनियमावली के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बहिः बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 से मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिन सहित) 51वीं एजीएम के प्रयोजनाः

वोटिंग का परिणाम एजीएम की समाप्ति से 2 कार्यदिवस के भीतर घोषित किया जाएगा तथा घोषित परिणा संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट (www.skpmil.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ (www.bseindia.com) पर भी प्रकाशित किए जाएंगे।

पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्'ज) तथा इंस्टावोट ई—वोटिंग मैनुअत देखें अथवा श्री शामवंत कृशवाह, लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड से फोन नबर : 011-49411000, ई-ले आईडी shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर सम्पर्क करें अथवा श्रीमती रीतिका प्रियम, कम्पनी की कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से पंजीकृत कार्यालय में 011—46263200 पर अथवा ई—मेत info@skpmil.com अथवा cs@skpmil.com पर सम्पर्क करें, जो सदस्यों की शिकायतों का निवारण करेंगे

तिथि : 01 सितम्बर, 202

निदेशक मंडल के आदेश द्वार वास्ते श्री कृष्ण पेपर मिल्स ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटेर रीतिका पिर कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिका

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए

पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में

तथा मैसर्स वेस्टर्न यूपी टोलवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-376, अपर ग्राउंड पलोर, निर्माण विहार, नई दिल्ली – 110092 में स्थित है, के विषय में

रतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 25 अगस्त, 2023 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तंत करने की

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है. अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए

> वेस्टर्न यूपी टोलवे लिमिटेड बी-376, अपर ग्राउंड फ्लोर, निर्माण विहार, नई दिल्ली - 110092

कृते एवं हिते आवेदव वेस्टर्न यूपी टोलवे लिमिटेड हस्ता. / -ओम प्रकाश निदेशक

आवेदक

डीआईएन : 07419617 बी–376, अपर ग्राउंड फ्लोर निर्माण विहार, नई दिल्ली - 110092

प्रपत्र बी सार्वजनिक उद्घोषणा

तिथि: 01/09/2023

स्थान : नई दिल्ली

(भारतीय ऋणषोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 का विनियम 12)

	विनियमिवली २०१६ की विनियम १२)									
	आइसबर्ग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितग्राहियों के ध्यानार्थ									
	क हितजाहिया के ध्यानाय									
क्र.सं.	विवरण	विस्तृत विवरण								
1.	निगमित देनदार का नाम	आइसबर्ग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड								
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	25/02/2010								
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली								
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं./सीमित दायित्व पहचान सं.	U74999DL2010PTC199536								
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : बेसमेंट 1, एलीगेंस टॉवर, भूखंड सं. 8, जनपद केंद्र जसोला, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली 110025								
6.	ऋणषोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि	30/08/2023								
7.	निगमित देनदार की परिसमापन प्रारंभन तिथि	31/08/2023								
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत् ऋणशोधन अक्षमता व्यवसायी का नाम एवं पंजीकरण संख्या									
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, परिसमापक का पता एवं ई—मेल	पता: वीआरएसए इंसालवेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, बिल्डिंग नं. 11, तृतीय तल, हरगोविंद एन्वलेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 ई—मेल आईडी: vijender@vsa.net.in								
10.	परिसमापक के साथ पत्र—व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई—मेल	नं. 11, तृतीय तल, हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 मेल आईडी : iberg.cirp@gmail.com								
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	30/09/2023								

सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–।।। ने दिनांक 31–08 एत-दुद्दारा सुभवा कथा जाता है कि माननाथ राष्ट्राय कथना विध्यक आवकरण, नह दिल्ला पाठ—III न विभाव 33—08—2022 को आहर्ष्ट्रसर्व उद्धरनपंत्र प्राहर्वेट किनिस्टेड के परिस्तागन को प्रारंग करने का आदेष दिया है। एत-दुद्दारा आहर्ष्ट्रसर्व उद्धरनपंत्र प्राहर्वेट हिमिस्टेड के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि ये मद सं 10 के समझ वर्णि यह पर, परिसमापक के पास 30—09—2023 को अथवा इससे पूर्व, साक्ष्य सहित अपने दावों को प्रस्तुत करें। दावें का साहय, मारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावर्वे 2016 के अंतर्गर

दाव को साहय, भारताय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बांड (धारसमापन प्राक्रया) वानयमावला 2016 के अतगत निर्धारितानुसार दावे के अनुसम्वर्धन में एक शायध्यात्र (किसी नोटरी पिहक अध्यवा ओध्य किमिश्नर के समक्ष विटनेस्ड) तथा प्रलेखीय साहय के साध निम्नलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है : प्रपत्र सी — परिशालनगत ऋणदाताओं (श्रीमकों एवं कर्मचारियों को छोड़कर) द्वारा दावों के लिये प्रपत्र छै — विस्तीय ऋणदाताओं द्वारा दावों के लिये प्रपत्र इं — अमिकों अध्यवा कर्मचारियों द्वारा दावों के लिये प्रपत्र एक — अमिकों अध्यवा कर्मचारियों द्वारा दावों के लिये

प्रपत्र जी – किसी भी अन्य हितग्राही द्वारा दावों के लिये

प्रपत्र जा — किसा भा अन्य हितग्राष्टा द्वारा दावा के ालय वार्चों को प्रस्तुत करने के रिसे निर्धारित प्रपत्र, निम्नतिखित तिंक से डाउनलोड किया जा सकता है : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads दिलीय ऋणदातागण, अपने दावों को साक्ष्य सिंहत केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदात साक्ष्य सिंहत दावों को व्यविताग रूप में, डाक द्वारा अथवा इतेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। दावों के बुद्धिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंड अधिरोपित किया जाएगा।

पत्ता के बुद्धिन करना होने करने पत्ति के पत्ति किया के वीरान अपने दावों को प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे किसी हितग्राही द्वार यदि कोई भी हितग्राही परिसमापन प्रक्रिया के वीरान अपने दावों को प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे किसी हितग्राही द्वार भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावर 016 के अंतर्गत निगमित ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किये गये दावे, धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तु

> सीएमए विजेंद्र शम परिसमापक – मैसर्स आइसबर्ग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेर आई पी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016 -2017/1002 पता : वीआरएसए इंसालवेंसी प्रोफेशनल्स एलए 11 (तृतीय तल) हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110

हिंदिया कॉपोरेंट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी 2 बिल्डिंग 5 ची मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014. शाखा कार्यालयः चृतिट ने. 804, 805, 806, 80ी मंजिल, डेल्टा बिंग, रेक्जा टॉवर्स, 177, जाना सलाई, चेन्नई-60002

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा उन कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को निम्नलिखित सूचना देता है जो

अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे अर्थात **बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा उनको प्रदत्त गृह ऋण/सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण के मुलधन तथा ब्याज एवं

उस पर आए अन्य प्रभारों का भगतान करने में चक की है और जिसके परिणामस्वरूप ऋण नॉन-पर्फामिंग आस्ति हो गये हैं। तदनसार वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत तथा उसके नियमों के तहत उनके अन्तिम ज्ञांत पतों पर सूचनाएं भेजी गयी थीं, हालांवि

उन्हें अन-सर्व्ड/अनडिलीवर्ड वापस कर दिया गया, अतः इस प्रकाशन के माध्यम से उनके द्वारा समय-समय पर ली गयी सुविधाओं के तहत बकायों के भुगतान के लिए

दक्षिण-मार्ग और लिफ्ट स्थान

सूचना की वैकल्पिक सर्विस के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उपर्युक्त कर्जदारों तथा/अथवा सहकर्जदारों, जमानतियों को इस सूचना के प्रकाशन की

तिथि से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित बकाया भुगतान करने का परामर्श दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर (**बजाज) हाउसिंग फाइनेंस** 

**लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह रहित**) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) तथा

उपर्युक्त नामधारी पक्षकारों को उपर्युक्त सम्पत्तियों में तृतीय पक्ष का हित हस्तान्तरित न करने, सृजित न करने का परामर्श दिया जाता है, जिस पर बजाज

प्रतिभति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत प्रतिभत आस्तियों/बंधक सम्पत्ति का कब्जा करने के लिए भावी कदम उठाये जायेंगे।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत

बंधक अचल आस्ति/सम्पत्ति का पता

अग्रलिखित गैर-कृषि सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर सी/03 पहली

मंजिल, माप 88 वर्ग गज, यानी 73.57 वर्ग मीटर, बोपल सहवास

कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के मद्रिका अपार्टमेंट के नाम

से जानी जाने वाली योजना में. भव्य पार्क ब्लॉक नंबर 311 (पुराना सर्वे

नंबर 245/1, 245/2), बोपल अहमदाबाद गुजरात-380058 में स्थित,

पूर्व-खुला आकाश में, उत्तर-खुला स्थान, पश्चिम-फ्लैट नंबर सी,

देनांक : 02–09–2023 ध्यान : दिल्ली

शाखाः चेन्नर्ड

BAJAJ

एतद्वारा कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है।

ऋण खाता सं./कर्जदार( रों )/सह-कर्जदार( रों )/

पताः हाउस नं. जी1, प्लॉट नंबर 609, 6वीं स्टीट, मंबक्कम

रोड, चेन्नई एमआईजी, टी.एन.एच.एम सित्तलापक्कम

(लैन नंबर H403HLP0330724)

हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 02 सितम्बर, 2023 स्थान : राजस्थान

. ज्ञानेश्वर सुथार (कर्जदार)

कांचीपरम कॉलोनी. चेन्नई-600126

2. कुसुम एस (सह-कर्जदार)

FORM NO 14 | [See Regulation 33(2 Notice Under Rule 2 of Second Schedule

THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL ist Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Center, Opposite Kishan Bhawan, Tonk Road, Jaipur-30201 R.C. No. 838/2022

HDFC Bank Ltd. Versus ... Certificate Holde M/s Goyal Udyog & Ors. ... Certificate Debto DEMAND NOTICE

To, 1. M/s Goyal Udyog, through its proprietor M Niranian Agarwal, office at Ward No. 5, Suraigar Mandi, Chirawa, District Jhunjhunu 333029

2. Mr. Niranian Agarwal S/o Mr. Ramana Agarwal R/o Anaj Mandi, Ward No. 4, Surajgar District Jhunjhunu 333029, Rajasthan 3. Mr. Ramanand Agarwal S/o Mr. Basant La Anarwal. R/o Anai Mandi, Ward No. 4, Surajgarh strict Jhunjhunu 333029, Rajasthan

4. Mr. Praveen Kumar Agarwal S/o Mr. Ramanao Agarwal R/o Anaj Mandi, Ward No. 4, Surajgarh District Jhunjhunu 333029, Rajasthan

District Jhunjhunu 333029, Hajasthan In view of the Recovery Certificate dated 29.11.2022 issued in OA No. 08/2022 passed by the Presiding Officer, DRT, Jaipur for an amount of Rs. 1,52,98,038.64 (RC Amount) in word Rs. One Crore Fifty Two Lakh Ninety Eight Thousand Thirty Eight and Sixty Four Paisa Only and interest whereon as per recovery certificate is due against you. 1.You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 days of the receipt of the notice, falling which the recovery shall be made as per rules. 2.You are, hereby ordered to appear pure such that the recovery shall be made as per rules. 2.You are hereby ordered to appear pre rules. Z'you are, hereby ordered to appear before the undersigned on 05.10.2023 at 11.00 AM.

3.In additional to the sum aforesaid you will be liable to pay: a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings. b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that may be taken for otice and other process that may be taken f covering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU ecovery Certificate Amount Rs. 1,52,98,038.6

Recovery Certificate Amount
Cost of Suit Rs. 1,51,790.00 est from 16.12.2021 to 30.04.2023 @ 18% p.a. (Simple) Rs. 37,72,119.12 Amount Recovered after RC issued (If any) Rs. Nil Rs. 1,92,21,947.76

Recovery Officer-II Debt Recovery Tribunal, Jaipur Seal

Company's website

Date : September 1, 2023

Place : New Delhi

entitlement of members to dividend.

laws on their registered email addresses

मांग सूचना की तिथि

22 अगस्त 2023

रु. 21.37.573/-

(रुपये इक्कीस लाख

सैंतीस हजार पांच सौ

तिहत्तर मात्र)

FORM NO.14 Notice under Rule 2 of Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(Ist Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Cen Tonk Road, Jaipur) Dispatch No. DRT/JP/4602

Dispatch No. 506 of 2021
DEMAND NOTICE State Bank of India Versus ... Certificate Hold
Smt. Amita Garg & Others ... Certificate Deb To, 1. Smt. Amita Garg Wio Shri Rakesh Garg, R. House No. 14, Pragli Colony Near St. Stephe School, Madanganj, Kishangarh, District Ajmi (Zei)

Negl.)

2. Rakesh Garg S/o Shri kailash Chand Garg R/o
House No. 14, Pragti Colony Near St. Stepher School, Madanganj, Kishangarh, District Ajme (Raj.) n view of the Recovery Certificate issued in O.A. N

In view of the Recovery Certificate issued in O.A. No. 666/2019 passed by the Presiding Officer. DRT. Jaipur for an amount of Rs. 39.41,265 f. Rs. Thirty Nine Lakhs Forty One Thousand Two Hundred Sixty Five Only) and interest whereon as per Recovery certificate is due against you. 1. You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 day of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made as per Rules. 2. You are, hereby ordered to appear before the undersigned on 13.09.2023 at 11.00 AM. 3. In addition to the sum aforesaid, you will be liable to pay; a). Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceeding. b). All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and of warrants and others process that may be taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU Certificate DUES Cost of the Suit Interest from 26.03.2019 to 05.05.2023 Rs. 39,41,265.0 Rs. 40,426.00 Rs. 16,21,857.5

5. Total Dues Seal

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Email: cs@touchwood.in Website: www.touchwood.in

ed (the "Company") is scheduled to be held on Friday, 29th September

CIN: L92199DL1997PLC088865 Regd. Off.: Sec-B, PKT-1, Space No-301 and 302 LSC-7, Community Vasant Kunj, Sector B, New Delhi, South West Delhi- 110070 Contact No.: +91 9810108253

26th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of Touchwood

2023 at 4 P.M. (IST)through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in

compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated the 08" April, 2020, 17/2020 dated the 13" April, 2020, 20/2020 dated the 05" May, 2020, 02/2021 dated the 13" January, 2021 and

02/2022 dated the 05th May, 2022 and 11/2022 dated the 28th December, 2022 (collective) referred to as "MCA Circulars"), SEBI circular dated the 05th January, 2023 and applicable

provisions of the Companies Act. 2013 (the "Act") and the rules made thereunder and SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulation"), to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM.

In Compliance with the above MCA Circulars, electronic Copies of Notice of the AGM along

with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered / available with the Company/ Depository Participants

Members are requested to register and update their email addresses and bank account

details for receipt of dividend etc., as per the process advised by the Depository Participants.

The Notice of the AGM and the Annual Report will be available on the Company's website

www.touchwood.in and also on the website of the National Stock Exchange of India Ltd

Members will have the opportunity to cast their vote electronically on the business as set ou

in the AGM Notice through remote e-voting or e-voting to be conducted at the AGM. For the

Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories, logir details for e-voting and attending AGM would be sent to their registered email addresses.

Members whose credentials are not registered with the Company/ Depositories, the detailed

procedure for voting and attending AGM will be provided in AGM Notice which will also be available on Company's website <a href="www.touchwood.in">www.touchwood.in</a>. The Members are requested to visit the

For Individual Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and

CDSL should login through the sites of NSDL and CDSL to cast the votes during the remote e-

voting period. However, for VC / OAVM, Members will be provided with a facility to attend the AGM through the NSDL e-Voting system.

The Board has recommended a final dividend of Rs. 0.35/- per equity share of Rs. 10/- each

fully paid up. The Company has fixed 22<sup>nd</sup> September, 2023 as record date for determining

The Notice of 26th AGM will be sent, shortly, to the members in accordance with the applicable

www.nseindia.com/, the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

. Minus Amount received after issue of Recovery Certificate Rs. 56.03.548.54

🙉 ansal Housing

- An ISO 9001:2015 Company -

पंजीकत कार्यालय 606. 6वां तल. इंद्र प्रकाश. 21 बाराखंबा रोड. नई दिल्ली-110001 प्रधान कार्यालय २एफ-एएचसीएल, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010 ई-मेल : ahl@ansals.com वेबसाइट : www.ansals.com सीआईएन : L45201DL1983PLC01682

### 39वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अधीन गठित नियमा तथा संबी (सूचीकरण वायित्व तथा प्रकटन आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमनां") के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए सर्कुलरो") साधारण सर्कुलर नं. 14/2020 (दिनांक 8 अफ्रैल, 2020), 17/2020 (दिनांक 13 अफ्रैल, 2020), 20/2020 (दिनांक 5 मई, 2020), 22/2020 (दिनांक 15 जून, 2020), 02/2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021), 02/2022 (दिनांक 05 मुई, 2022) तथा सर्कुलर नं . 10/2022 (दिनांक 28 दिसम्बर, 2022) क्रमशः तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड हार जारी ("सेबी सर्कुलर") सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी. 2021. सेबी नत्र, २७८८, राजार्भकारार्भकार्भार्भकार्भाक्ष्यात्र्यकार्भाग्न्यकार्भाग्न्यकार्भार्भकार्भक्षयात्र्यकार्भार्भकार् एवजोर्भारिएकोर्भिराम्बर्धिरम्भिकार्द्रकार्भाग्ने/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा सेबी/एघजोर्भोजोर्झ-१-पी/सीआईआर/पी/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 क्रमशः के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्स भारताजाङ्कार,भार्८८८)न घराभक्ष २ जंगचर, २८०२ क्रमचर क्ष्युक्तर चारक्य कम्क्रारचा (पाना),जन्म अडियो-विज्ञुक्त साधनों (ओएवीएम) के जिरिए एजीएम की सूचना में निघरित व्यवसाधिक पहलुओं पर विचार करने के लिए अंसल हाउसिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 39वीं वार्षिक साधारण बैठक एजीएम) बधवार, 27 सितम्बर, 2023 को अपराहन 04.30 बजे आयोजित की जाएगी। । सूचना तथा कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सम

दस्यों को इलेक्टॉनिक प्रारूप में भेज दी गई है. जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों वे ना के प्रतिपद्धाना आरुप ने ना प्राचित्र के प्रतिपद्धान आरुप है। ज्ञास पंजीकृत हैं। जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का कार्य 01 सिताबर, 2023 को सम्पन्न कर लिया गया है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट <mark>www.ansals.com</mark> से र्म अउनलोड किया जा संकता है। प्रधिनियम की धारा 108 के साथ पठित (प्रबंधन तथा प्रशासनिक) नियम 2014 के नियम 20 ('नियम'

ई-वोटिंग की सुविधा के प्रावधान के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) क ामों के नियम 20 के अनुसार सदस्यों को नीचे उल्लिखित जानकारी पटान की जाती है

नारावास, 20 तिराज्यस, 2023 को अपराहन 05.00 बजी नामल होगा। प्रसाद इन्यादन प्राचन 26 सितम्बर, 2023 को अपराहन 05.00 बजे के उपरांत निशाक्त कर दिया जाएगा। इस अविद्ये के दौरान, अंतिम तारीख यानी बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को मौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रास्त्रम मे शेयर धारण रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्टॉनिक तरीके अपने वोट डाल सकते हैं। रायर बारण रचान पाल कपना के राचस्य कुलियुनाच्छे रासक अन्य चाट उनल सकत है। काई भी व्यक्ति, जिन्होंने सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किए हैं एवं कंपनी वे सदस्य बने हैं तथा अंतिम तारीख यानी बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 तक शेयर धारण रखते हैं, व

कंपनी के ईमेल का पता sect@ansals.com अथवा helpdesk.evoting@csdlindia.com पर अनुरोध भेज कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं

डाले हैं वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोर ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं वे एजीएम में शामिल होने के पात्र होंगे। हालांकि वे बैठक में वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

फोलियो नम्बर, पूरा पता, पंजीकरण कराए जाने वाले ईमेल का पता के साथ पैन की स्वयं सत्यापित स्केन की हुई प्रतिलिपि तथा निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज (यानी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, बैंक का स्टेटमेंट, आधार) का उल्लेख होना चाहिए, कंपनी के आरटीए के पास delhi@linktime.co.in पर ईमेल के जरिए मेजने का अनुरोध किया जाता है तथा डिमैट प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल का पता का अद्यतन कराएं।

सितम्बर 2023 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगे।

ा रितान्यर २०२० राज (चाना ।चन तारता) यय -रुपा न्योटिंग की चहति एजीएम की सूचना के साथ सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को मेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध । कृपया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम गामिल होने की निर्देशावलियां पढ़ें, जिसे कंपनी की वेबसाइट यानी <u>www.ansals.com</u> अथव निडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> के डाउनलोड सेक्शन किया जा सकता है। एजीएम मे शामिल होने तथा ई-वोटिंग के संबंध में अगर आपके पास कोई प्रश्न है, त www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अधीन उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेसचन्स ("एफ्एक्यू" वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेर सकते हैं अथवा 1800225533 पर कॉल क

Ashima Arora स्थान : वैशाली, गाजियाबाद Company Secretary & Compliance Officer

By the order of the Board of Directors

For Touchwood Entertainment Limited

कांपीरट कार्यालय : तीसरी मंजिल, पंचशील टेक पार्क विमान नाग, पुणे-411014, महाराष्ट्र शाखा कार्यालय : 11वीं मंजिल, कार्यालय सं. 1152, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, एजॉट ने. ईंड, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुग, नई दिल्ली-110034

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम,

2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

अग्रफल रहे हैं और परिणामस्त्रारूप उनके क्या गैर-विखादन आदित (एन पी.ए.) हो गये हैं। तहनमार विजीय आदितयों के प्रतिभविकरण एवं पनर्निर्माण की धारा 13/2 एवं प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं उसके नियमों के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पते पर उन्हें सूचनाएँ जारी गयी थीं, किन्तु उसे अनसर्व्ड/अनडिलीवर्ड वापस क दिया गया अतः कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से समय–समय पर उनके द्वारा ग्रहण की गयी ऋण सुविधाओं के तहत अपनी बकाय राशियाँ अदा करने के लिए अवगत/सचित किया जाता है। ऋण खाता सं./कर्जदार( रों )/सह-कर्जदार( रों )/जमानती( यों ) के नाम एवं पता प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत/ बंधक अचल आस्ति/सम्पत्ति का पत मांग सूचना की तिथि

अग्रलिखित गैर-कृषि सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : फ्लैट नं. 21-बी, प्रथम 22 अगस्त, 2023 लैन नंबर 401FSP36517811) तल, शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049, पूर्व : खुला, पश्चिम : अन्य फ्लैट, केसी सामल एंड कंपनी (इसके उत्तर : खुला, दक्षिण : प्रवेश रुपये सैंतालीस लाख ोपराइटर/प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंध निदेशक के तीन हजार बाईस माध्यम से) (कर्जदार) पताः सी-12 पर्यावरण मालवीय नगर दिल्ली-110017

2. किशोर चंद्र सामल (सह-कर्जदार), पताः सी-12 पर्यावरण कॉम्प्लेक्स नेब सराय साकेत दिल्ली-110030 3. अमित कुमार सामल (सह–कर्जदार) पताः सी–12 पर्यावरण कॉम्प्लेक्स नेब सराय साकेत दिल्ली–110030, इसके अलावा प्लॉट नंबर–21 बी, फर्स्ट फ्लोर शाहपुर जाट नई

आस्तियों/बंधक सम्पत्ति का कब्जा करने के लिए भावी कदम उठाये जायेंगे।

सचना की वैकल्पिक सर्विस के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उपर्यक्त कर्जदारों तथा/अथवा सहकर्जदारों, जमानतियों को इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों भीतर भावी ब्याज सहित बकाया भुगतान करने का परामर्श दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य **अधिकार के पूर्वाग्रह रहित**) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत प्रतिभृत



होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड सीआईएनः L65990MH2010PLC240703

अधिकृत प्राधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वेबसाइट: homefirstindia.com

फोन नं.: 180030008425

ई—मेल आईडी: loanfirst@homefirstindia.con

चल परिसंपत्तियों (इनवेंटरी) की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना रतदृद्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कॉलम (ii) के अनुसार कर्जदार(ओं) और सह—कर्जदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक / प्रभारित कॉलम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जिनका नीचे दिए विवरण

अनुसार अपनी बकाया राशि और ब्याज की वसूली के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है और बकाया राशि के पुनर्भृगतान में असफल होने के फलस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त संपत्ति/ओं की बिक्री द्वारा बकाया राशि वसूल करने का प्रस्ताव करता है और ये नीचे बताए अनुसार ''जैसी हैं, जहाँ हैं'' और ''जैसी हैं, जो भी हैं' आधार पर बिक्री की जायेंगी। नीलामी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के देयों की कॉलम (i) के अनुसार कर्जदार(ओं) और सह—कर्जदार(ओं) से वसूली के लिए "ऑन लाइन" आयोजित की जायेगी। **बोली वृद्धि राशि— रु. 1,000/—** क कर्जदार(ओं) और | मांग सूचना | मांग | कब्जे की | आरक्षित | <sub>राज्यती</sub> | नीलामी | ईएमडी और दस्तावेज | प्राधिकृत

सं.	सह–कर्जदार(ओं) के नाम	संपत्ति का पता	इनरे	वंटरी का विवरण	की तारीख	सूचना राशि(रु.)	तारीख	मूल्य राशि	इएमडा राशि	की तिथि व	जमा करने की आं तिथि एवं समय	तेम अधिकारी का
	क नाम					· · /		TIITI		समय	ाताथ एव समय	नंबर
1.	नीरज, अभिकल्प			ास, प्लास्टिक बर्तन, बर्तन पैक, बेड,		12,89,603	13.04.2023	3,750	375	11.09.2023	09.09.2023	9958116419
	कुमार	कालोनी, छपरौला, खसरा	फूलदान, पर्दे, शो रैक, छोत	ी कुर्सी, कपड़े (खराब स्थिति), पुस्तकें,						(पूर्वा. 11 —	(अप. 5 तक)	
		नं. 266, रेलवे कालोनी,		ब, फूलदान, लकड़ी की अलमारी, सेट				अप. 2)				
		छपरौला, गाजियाबाद,		• •								
		उत्तर प्रदेश—201006	टाप बाक्स, एलइंडा टावा, र	सूटकेस, प्रसाधन सामग्री, प्लेट								
ई—नीलामी सेवा प्रदाता		ई—नीलामी वेबसाइट/विवरण, अन्य निबंधन व शर्तों के लिए	खाता संख्याः ईएमडी /					गखा आईएफएस रेन	सी लाभ	ार्थी का नाम		
		अन्य ।नबधन व शता क ।लए	अन्य	अन्य राशि जमा करने हेतु			9	गेड				

उत्तर प्रदेश—201006										
ई—नीलामी सेवा प्रदाता	ई—नीलामी वेबसाइट/विवरण, अन्य निबंधन व शर्तों के लिए		संख्याः ईएमर राशि जमा क		I	गखा आईएफएस गेड	सी	लाभार्थी का नाम		
कंपनी का नाम: ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) हेल्प लाइन नं: 079–35022160/149/182 संपर्क व्यक्तिः राम शर्मा–8000023297 ई–मेल आईडी: ramprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net	http://www.homefirstindia.com https://homefirst.auctiontiger.net	912020036268117— होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड— एक्सिस बैंक लि., एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट					UTIB000039	95	प्राधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	

की जायेगी। ऑनलाइन ई–नीलामी निविदा फॉर्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य निबंधन व शर्तों सहित ई–नीलामी निविदा दस्तावेज पोर्टल साइट पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। यद्यपि, इच्छुक निविदाकार अपनी निविदा जमा करने से पूर्व नीलामी के लिए रखी जाने वाली संपत्ति पर भारों, हक और संपत्ति प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / देयों के बारे में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जांच-परख कर संतुष्ट हो लें। ई-नीलामी विज्ञापन होम फर्स्ट की ओर से कोई वायदा नहीं है और न ही इसे होम फर्स्ट का वायदा या प्रस्तुति माना जाए। संपत्ति होम फर्स्ट को ज्ञात व अज्ञात सभी मौजूदा व भावी भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रत्यामूत ऋणदाता किसी भी प्रकार से किसी तीसरी पार्टी दावे / अधिकारों / देयों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ई—नीलामी "जहाँ है जो है" और "जो है जैसी है" आधार पर आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन" होगी। नीलामी होम फर्स्ट के स्वीकृत सेवा प्रदाता मेसर्स ई—प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लि. — ऑक्शन टाईगर के माध्यम से वेब पोर्टलः homefirst.auctiontiger.net पर आयोजि

बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के तहत होगी।

ई—नीलामी के अन्य निबंधन और शर्ते निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित हैं– 02. https://homefirst.auctiontiger.net 01, http://www.homefirstindia.com,

दिनांकः 02.09.2023,

सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत सांविधिक बिक्री सूचना कर्जदार / जमानितयों को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व यथाउल्लिखित राशि का भुगतान करने और अपना सामान वापस लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा इनवेंटरी की नीलामी / बिक्री की जायेगी और बकाया देय, यदि कोई हों, की ब्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

Mohiuddinpur (Meerut), unit of UPSSCL. Bid document containing details of scope of work, eligibility criteria, other terms and conditions and draft agreement etc. can be downloaded from website www.upsugcorp.in. Interested bidders may submit their

16.09.2023 at 12:00 noon. Managing Director, UPSSCL reserves the right to reject any/all tenders without assigning any reason.

MANAGING DIRECTOR

Ref.No. SSC/CCDA/Cane Marketing/2023-24/708

**Ansal Housing Limited** 

्रतद्वारा सूचना दी जाती है कि एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के वगैर कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा सेवी (सूचीकरण दायित्व तथ

युक्त किया है। ई-वोटिंग की सुविधा <u>https://www.evotingindia.com/</u> पर उपलब्ध है। रमा क ानयम २० क अनुसार सदस्या का नाच उात्लाखत जानगरा प्रदान का जाता है : रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 24 सिताब्य, 2023 को सुबह 09,00 बजे आरम्म होगी ए मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को अपराहन 5.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग प्रारूप

भीतिक प्राष्ट्रभ में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण जिनका ई-मेल का पता कंपनी के साथ पंजीकृ नहीं है उनसे सदस्यों द्वारा भलीमांति हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रतिलिपि, जिसमें उनक

स्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बही बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023 से बुधवार

कते अंसल हाउसिंग लिमिटेड वी.पी. एवं कंपनी सचिव एम. नं.: एफ 4055

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

**मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा उन कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को निम्नलिखित सूचना देता है जो **बजा**ज **फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा उन्हें प्रतिभृति सम्पत्ति के विरुद्ध गृह ऋण(णों)ऋण(णों) के लिए ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित मुलधन के पनर्भगतान में अपने दायित्वों को परा करने

दिल्ली 110049

उपर्युक्त नामधारी पक्षकारों को उपर्युक्त सम्पत्तियों में तृतीय पक्ष का हित हस्तान्तरित न करने, सृजित न करने का परामर्श दिया जाता है, जिस पर बजाज फाइनेंस तिथि : 02.09.2023 स्थान: दिल्ली/रा.रा.क्षे. अधिकृत प्राधिकारी, कृते बजाज फाइनेंस लिमिटेड

मराठी सेतिया मोथल्ला वार्ड नंबर 30 बीकानेर राजस्थान, वार्ड नंबर 30 बीकानेर-334001